

## प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

|                                                                                                        | वास्तविक<br>2001-2002 | वास्तविक<br>2002-2003 | वास्तविक<br>2003-2004 | वास्तविक<br>2004-2005 | वास्तविक<br>2005-2006 | वास्तविक<br>2006-2007 | वास्तविक<br>2007-2008 | वास्तविक<br>2008-2009 | संशोधित<br>2009-2010 | बजट<br>2010-2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>राजस्व प्राप्तियां</b>                                                                              | <b>201306</b>         | <b>230834</b>         | <b>263813</b>         | <b>305991</b>         | <b>347077</b>         | <b>434387</b>         | <b>541864</b>         | <b>540259</b>         | <b>577294</b>        | <b>682212</b>    |
| <b>क. कर राजस्व</b>                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                  |
| (राज्यों के हिस्से को घटाकर)                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                  |
| (ब्यौरा अनुबंध 7 में)                                                                                  | 133532                | 158544                | 186982                | 224798                | 270264                | 351182                | 439547                | 443319                | 465103               | 534094           |
| <b>ख. कर-भिन्न राजस्व</b>                                                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                  |
| ((ब्यौरा अनुबंध 7 में)                                                                                 | 67774                 | 72290                 | 76831                 | 81193                 | 76813                 | 83205                 | 102317                | 96940                 | 112191               | 148118           |
| <b>पूंजी प्राप्तियां</b>                                                                               | <b>162500</b>         | <b>180531</b>         | <b>211333</b>         | <b>200391</b>         | <b>179549</b>         | <b>144482</b>         | <b>197978</b>         | <b>299863</b>         | <b>449833</b>        | <b>426537</b>    |
| <b>1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)</b>                                                                  | <b>87724</b>          | <b>97588</b>          | <b>88860</b>          | <b>46031</b>          | <b>95374</b>          | <b>110446</b>         | <b>131768</b>         | <b>233630</b>         | <b>398411</b>        | <b>345010</b>    |
| 1.01 सकल बाजार उधार                                                                                    | 114213                | 125000                | 135934                | 80350                 | 131000                | 146000                | 168101                | 273000                | 451000               | 457143           |
| 1.02 घटाइए-वापसी-अदायगियां                                                                             | 26489                 | 27412                 | 47074                 | 34319                 | 35626                 | 35554                 | 36333                 | 39370                 | 52589                | 112133           |
| <b>2. विदेशी सहायता (निवल)</b>                                                                         | <b>5601</b>           | <b>-11934</b>         | <b>-13488</b>         | <b>14753</b>          | <b>7472</b>           | <b>8472</b>           | <b>9315</b>           | <b>11015</b>          | <b>16535</b>         | <b>22464</b>     |
| 2.01 सकल विदेशी उधार                                                                                   | 14790                 | 12352                 | 11956                 | 21855                 | 14470                 | 16358                 | 16808                 | 21022                 | 27766                | 34735            |
| 2.02 घटाइए-वापसी-अदायगियां                                                                             | 9189                  | 24286                 | 25444                 | 7102                  | 6998                  | 7886                  | 7493                  | 10007                 | 11230                | 12271            |
| <b>3. ऋणों की वसूली*</b>                                                                               | <b>16403</b>          | <b>34191</b>          | <b>67165</b>          | <b>62043</b>          | <b>10645</b>          | <b>5893</b>           | <b>5100</b>           | <b>6139</b>           | <b>4254</b>          | <b>5129</b>      |
| <b>4. अल्प बचतें (निवल)@@</b>                                                                          | <b>8755</b>           | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>-11302</b>         | <b>-1302</b>          | <b>13256</b>         | <b>13256</b>     |
| <b>5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)</b>                                                                  | <b>4173</b>           | <b>4621</b>           | <b>4892</b>           | <b>5310</b>           | <b>5545</b>           | <b>5178</b>           | <b>3897</b>           | <b>8041</b>           | <b>8500</b>          | <b>7000</b>      |
| <b>6. विशेष जमाराशियां (निवल)</b>                                                                      | <b>8070</b>           | <b>9326</b>           | <b>110</b>            | <b>-5750</b>          | <b>487</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b>7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश</b>                                             | <b>3646</b>           | <b>3151</b>           | <b>16953</b>          | <b>4424</b>           | <b>1581</b>           | <b>534</b>            | <b>38795</b>          | <b>566</b>            | <b>25958</b>         | <b>40000</b>     |
| <b>8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#</b>                                                       | <b>28128</b>          | <b>43588</b>          | <b>46841</b>          | <b>73580</b>          | <b>58445</b>          | <b>13959</b>          | <b>20405</b>          | <b>41774</b>          | <b>-17081</b>        | <b>-6321</b>     |
| <b>जोड़-प्राप्तियां</b>                                                                                | <b>363806</b>         | <b>411365</b>         | <b>475146</b>         | <b>506382</b>         | <b>526626</b>         | <b>578869</b>         | <b>739842</b>         | <b>839935</b>         | <b>1027127</b>       | <b>1108749</b>   |
| <b>राजस्व खाते पर घाटा</b>                                                                             | <b>100162</b>         | <b>107879</b>         | <b>98261</b>          | <b>78338</b>          | <b>92300</b>          | <b>80222</b>          | <b>52569</b>          | <b>253539</b>         | <b>329061</b>        | <b>276512</b>    |
| <b>प्राथमिक घाटा</b>                                                                                   | <b>33495</b>          | <b>27268</b>          | <b>-815</b>           | <b>-1140</b>          | <b>13805</b>          | <b>-7699</b>          | <b>-44118</b>         | <b>144788</b>         | <b>194540</b>        | <b>132745</b>    |
| <b>बजट घाटा*/नकदी का कम आहरण</b>                                                                       | <b>-1496</b>          | <b>1883</b>           | <b>-3942</b>          | <b>-1461</b>          | <b>-20888</b>         | <b>4517</b>           | <b>-27171</b>         | <b>43834</b>          | <b>-5581</b>         | <b>...</b>       |
| <b>राजकोषीय घाटा</b>                                                                                   | <b>140955</b>         | <b>145072</b>         | <b>123273</b>         | <b>125794</b>         | <b>146435</b>         | <b>142573</b>         | <b>126912</b>         | <b>336992</b>         | <b>414040</b>        | <b>381409</b>    |
| <b>* अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर</b>                                                              | <b>3976</b>           | <b>4099</b>           | <b>2171</b>           | <b>1687</b>           | <b>650</b>            | <b>1000</b>           | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b>कृषि निविष्टियों के लिए ऋण</b>                                                                      | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b>सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण</b>                                                                    | <b>354</b>            | <b>455</b>            | <b>491</b>            | <b>510</b>            | <b>506</b>            | <b>495</b>            | <b>479</b>            | <b>479</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b>@@ घटाइए-राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का हिस्सा</b>                                      | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b>केन्द्र को निवल</b>                                                                                 | <b>8755</b>           | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>            | <b>...</b>           | <b>...</b>       |
| <b># इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं</b>                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                  |
| (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई प्रतिभूतियां जिन्हें दुतरफा पूंजी व्यय से हटा दिया गया है। | ...                   | 1011                  | 1262                  | 415                   | 595                   | 40                    | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों एसबीआई को जारी की गई प्रतिभूतियां                                              | 1124                  | 384                   | -110                  | -88                   | 500                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ग) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां                                                                  | 9000                  | ...                   | 349                   | ...                   | 17263                 | 24121                 | 20554                 | 75942                 | 10306                | ...              |
| (घ) भारतीय खाद्य निगम को जारी प्रतिभूतियां                                                             | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 16200                 | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जारी प्रतिभूतियां                                                           | ...                   | 1511                  | 2375                  | 362                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (च) भा. रि. ब. को जारी प्रतिभूतियां                                                                    | 1141                  | 374                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (छ) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन                                                       | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 13343                 | ...                  | ...              |
| (ज) उर्वरक कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां                                                               | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 7500                  | 20000                 | ...                  | ...              |
| (झ) कुदरतमुख लौह अयस्क परियोजना को जारी प्रतिभूतियां                                                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ञ) बीएसएनएल से अल्पावधि अग्रिमों की वसूली                                                             | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ट) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में निवेश                                                               | 400                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ठ) आईडीबीआई के एसएसएसएफ निधि के लिए परिसंपत्ति प्रबंध न्यास                                           | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 9000                  | ...                   | ...                   | 1225                  | ...                  | ...              |
| (ड) एनएचपीसी और टीएचडीसी में इक्विटी में प्राप्ति योग्य ब्याज का परिवर्तन                              | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 640                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ढ) आईडीएफसी लि. को दिए गए ऋणों को समंजित करने के लिए भा. रि. ब. को जारी प्रतिभूतियां                  | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 350                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (ण) भारत की आकस्मिकता निधि की मूल निधि में बढ़ोतरी                                                     | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 450                   | ...                   | ...                   | ...                  | ...              |
| (त) आईडीबीआई की भारग्रस्त परिसम्पत्तियों की वसूली                                                      | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | ...                   | 134                   | ...                   | ...                   | 400                  | ...              |